



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 श्रावण 1937 (श10)
(सं0 पटना 946) पटना, शुक्रवार, 21 अगस्त 2015

सं0 3ए-2-वे0पु0-02/2015-7201/वि0
वित्त विभाग

संकल्प

19 अगस्त 2015

विषय :-कारा एवं सुधार सेवा विभाग के अंतर्गत बिहार प्रोबेशन सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों के वेतनमान स्वीकृति के संबंध में।

वेतन समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के अधीन विभिन्न पदों के लिए संकल्प संख्या-630, दिनांक 21/01/2010 के द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. संकल्प सं0-630, दिनांक 21/01/2010 के द्वारा बिहार प्रोबेशन सेवा के लिए निम्नलिखित वेतनमान की स्वीकृति दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से की गई है—

क्र.सं.	पदनाम	-	दिनांक-01/01/06 से स्वीकृत वेतनमान
1	प्रोबेशन पदाधिकारी	-	PB-2+4200/-
2	प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी	-	PB-2+4600/-
3	निदेशक, प्रोबेशनचर्या	-	PB-3+6600/-

3. वेतन समिति द्वारा यह भी अनुशंसा की गई थी कि जिन सेवा/संवर्गों का पदसोपान उनकी सेवा शर्त नियमावली में स्पष्ट विहित नहीं है, उनके मामले में संबंधित विभाग वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त कर ले। गृह विभाग के अधिसूचना संख्या-168, दिनांक 19/06/2014 के द्वारा बिहार प्रोबेशन (परिवीक्षा) सेवा नियमावली, 2014 अधिसूचित हुई। इसके द्वारा बिहार प्रोबेशन सेवा के मूल कोटि एवं प्रोन्नति के पदों को विहित किया गया है। अतएव वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में अन्य राज्य सेवाओं के समान बिहार

प्रोबेशन सेवा संवर्ग के मूल कोटि तथा प्रोन्नति के पदों के लिए वेतनमान का संशोधन राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

4. सम्यक विचारोपरांत बिहार प्रोबेशन सेवा के पदाधिकारियों के लिए संकल्प संख्या-630, दिनांक 21/01/2010 के द्वारा स्वीकृत वेतनमान निम्नवत रूप में संशोधित किया जाता है-

क्र.सं.	पदनाम	पूर्व स्वीकृत वेतनमान	संशोधित वेतनमान
1	प्रोबेशन पदाधिकारी	PB-2+4200/-	PB-2+4800/- 4 वर्ष बाद PB-3+5400/-
2	प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी	PB-2+4600/-	PB-3+6600/-
3	उप निदेशक (प्रोबेशन)	—	PB-3+7600/-
	निदेशक, प्रोबेशनचर्या	PB-3+6600/-	PB-4+8700/-

उपर्युक्त संशोधित वेतनमान दिनांक 01/01/2006 से वैचारिक तथा दिनांक 01/04/2007 से वास्तविक रूप से भुगतेय होगा। वेतन निर्धारण संकल्प संख्या-630, दिनांक 21/01/2010 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा और मात्र अंतर राशि भुगतेय होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एच० आर० श्रीनिवास,
सचिव (संसाधन)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 946-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>